



दशमलव के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$0.8 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$7.85 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$9.01 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$3.92 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$0.94 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$4.61 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$0.14 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$6.21 \times 30\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$1.71 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$7.9 \times 50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$4.62 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$9.54 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$2.54 \times 60\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$9.8 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$6.57 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$0.58 \times 40\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$5.21 \times 10\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$1.09 \times 80\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$5.11 \times 20\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$5.48 \times 90\% = \underline{\hspace{2cm}}$



दशमलव के प्रतिशत की गणना करें

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$0.8 \times 30\% = 0.24$$

$$7.85 \times 30\% = 2.355$$

$$9.01 \times 50\% = 4.505$$

$$3.92 \times 10\% = 0.392$$

$$0.94 \times 20\% = 0.188$$

$$4.61 \times 40\% = 1.844$$

$$0.14 \times 80\% = 0.112$$

$$6.21 \times 30\% = 1.863$$

$$1.71 \times 80\% = 1.368$$

$$7.9 \times 50\% = 3.95$$

$$4.62 \times 40\% = 1.848$$

$$9.54 \times 10\% = 0.954$$

$$2.54 \times 60\% = 1.524$$

$$9.8 \times 90\% = 8.82$$

$$6.57 \times 10\% = 0.657$$

$$0.58 \times 40\% = 0.232$$

$$5.21 \times 10\% = 0.521$$

$$1.09 \times 80\% = 0.872$$

$$5.11 \times 20\% = 1.022$$

$$5.48 \times 90\% = 4.932$$